



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

24 फाल्गुन, 1939 (श०)

संख्या- 249 राँची, गुरुवार,

15 मार्च, 2018 (ई०)

राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड

.....
आदेश

8 मार्च, 2018

संख्या-03नि0पं0-42/2016 रा0नि0आ0 321 -- यतः राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिला से त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2015 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68क एवं 65क 'क' सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और यतः उक्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर (यदि कोई हो) विचार करने के पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः इस संबंध में उपायुक्त, पलामू के प्रतिवेदन/अनुपूरक प्रतिवेदन एवं अभ्यर्थियों से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षोपरान्त अब राज्य निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क, सहपठित झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68क एवं 65 'क' 'क' के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को त्रिस्तरीय पंचायत निकायों/स्थानीय नगर निकायों के किसी भी पद या स्थान के लिए चुने जाने और निर्वाचित होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित किया जाता है।

क्रमांक	जिला	निर्वाचन क्षेत्र	नाम एवं पता	कारण
1	2	3	4	5
1	पलामू	II पलामू (02)	अशोक कुमार, पिता-नारायण सिंह, ग्राम-बहेरा, पो0-हैदरनगर, प्रखण्ड-हैदरनगर, पलामू। पिन-822115	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2		II पलामू (02)	कुशवाहा प्रेमलता मेहता, पति-मृगुनन्दन मेहता, ग्राम-सोबा, पो0-करीमनडीह, प्रखण्ड-हैदरनगर, पलामू। पिन-822115	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
3		II पलामू (02)	वकील कुमार मेहता, पिता-अशोक मेहता, ग्राम-बरवाडीह, पो0-हैदरनगर, प्रखण्ड-हैदरनगर, पलामू। पिन-822115	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
4		II पलामू (02)	शशिरंजन सिंह, पिता-उदय सिंह, ग्राम-बभण्डी, पो0-हैदरनगर, प्रखण्ड-हैदरनगर, पलामू। पिन-822115	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
5		II पलामू (02)	संतोष कुमार सिंह, पिता-योगेश्वर सिंह, ग्राम+पो0-हैदरनगर, प्रखण्ड-हैदरनगर, पलामू। पिन-822115	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

6	II पलामू (02)	साधु सिंह, पिता—रामचन्द्र सिंह, ग्राम—सोबा, पो0—करीमनडीह, प्रखण्ड—हैदरनगर, पलामू। पिन—822115	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
7	II पलामू (03)	पूनम देवी, पति—मिथलेश पासवान, ग्राम—शेखपुरा, पो0—कजरात नवाडीह, प्रखण्ड—हुसैनाबाद, पलामू। पिन—822116	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
8	II पलामू (03)	बबीता देवी, पति—सचितानन्द, ग्राम—कामठ, पो0—बराही, प्रखण्ड—हुसैनाबाद, पलामू। पिन—822116	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
9	II पलामू (03)	मुनेश्वरी देवी, पति—अयोध्या सिंह, ग्राम—नदियाइन, पो0—दंगवार, प्रखण्ड—हुसैनाबाद, पलामू। पिन—822116	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
10	II पलामू (03)	श्वेता देवी, पति—धन्न्जय कुमार, ग्राम—जुड़ीबांध, पो0—कजरात, प्रखण्ड—हुसैनाबाद, पलामू। पिन—822116	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
11	II पलामू (04)	मो जाकिर अली, पिता—मो0 एहस्न अली, ग्राम—पथरा, पो0—कुशानरायणपुर, प्रखण्ड—हुसैनाबाद, पलामू। पिन—822116	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
12	II पलामू (04)	नागेन्द्र सिंह, पिता—जितबन्धन सिंह, ग्राम—अहमदनगर, पो0—महुअरी, प्रखण्ड—हुसैनाबाद, पलामू। पिन—822116	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
13	II पलामू (05)	श्याम दुलारी देवी, पति—विजय पासवान, ग्राम—पतराखुर्द, पो0—झरगड़ा, प्रखण्ड—हुसैनाबाद, पलामू। पिन—822116	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
14	II पलामू (06)	कुसुम देवी, पति—जनेश्वर भुईयां, ग्राम—महुगाई, पो0—बभण्डीह, प्रखण्ड—पिपरा, पलामू। पिन—822113	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
15	II पलामू (06)	परमिला देवी, पति—ददन पासवान, ग्राम—बरवाडीह, पो0—सकलदीपा, प्रखण्ड—पिपरा, पलामू। पिन—822113	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

झारखण्ड गजट (असाधारण) गुरुवार, 15 मार्च, 2018

16	II पलामू (06)	पार्वती देवी, पति-श्यामदेव पासवान, ग्राम-तेन्दुई, पो0-सकलदीपा, प्रखण्ड-पिपरा, पलामू। पिन-822113	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
17	II पलामू (06)	राजकुमारी देवी, पति-जीवल लाल राम, ग्राम-लाभरा, पो0-बभण्डीह, प्रखण्ड-पिपरा, पलामू। पिन-822113	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
18	II पलामू (06)	रीता देवी, पति-हरवंश राम, ग्राम-बरवाडीह, पो0-खजुरी सरयाँ, प्रखण्ड-पिपरा, पलामू। पिन-822113	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
19	II पलामू (07)	बैजंती देवी, पति-सत्येन्द्र राम, ग्राम-सतगांवा, पो0-हरिहरगंज, प्रखण्ड-हरिहरगंज, पलामू। पिन-822131	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
20	II पलामू (08)	चिन्ता देवी, पति-अशोक राम, ग्राम+पो0-खड़गपुर, प्रखण्ड-हरिहरगंज, पलामू। पिन-822113	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
21	II पलामू (08)	रंजू सिंह, पति-मनोज कुमार सिंह, ग्राम+पो0-हरिहरगंज, प्रखण्ड-हरिहरगंज, पलामू। पिन-822131	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
22	II पलामू (08)	रेखा देवी, पति-संजय सिंह, ग्राम-ढकचा, पो0-पचमो, प्रखण्ड-हरिहरगंज, पलामू। पिन-822113	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
23	II पलामू (08)	विमली देवी, पिता-योगेश्वर यादव, ग्राम-तुरी, पो0-तुरहथ कटइया, प्रखण्ड-हरिहरगंज, पलामू। पिन-822131	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
24	II पलामू (08)	सुबसिया देवी, पति-अशोक यादव, ग्राम-अकौनी, पो0-सरसो, प्रखण्ड-हरिहरगंज, पलामू। पिन-822113	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
25	II पलामू (09)	रामचन्द्र राम, पिता-सोहर राम, ग्राम-चोरडण्डा, पो0-नामुदार, प्रखण्ड-नौडिहा बाजार, पलामू। पिन-822113	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

26	II पलामू (09)	रिंकू माला, पति-रविन्द्र प्रकाश बादल, ग्राम+पो0-सरईडीह, नौडिहा बाजार, पलामू। पिन-822113	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
27	II पलामू (10)	अनिता देवी, पति-मोहन लाल जयसवाल, ग्राम+पो0-छत्तरपुर, प्रखण्ड-छत्तरपुर, पलामू। पिन-822113	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
28	II पलामू (10)	हलीमा खातुन, पति-मो0 सलाउद्दीन, ग्राम-मसिहानी, पो0-छत्तरपुर, प्रखण्ड-छत्तरपुर, पलामू। पिन-822113	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
29	II पलामू (11)	अनील सिंह, पिता-अमरेश सिंह, ग्राम-चौखड़ा, पो0-छत्तरपुर, प्रखण्ड-छत्तरपुर, पलामू। पिन-822113	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
30	II पलामू (11)	वीरा सिंह, पति-शंकर सिंह, ग्राम-सिलदाग, पो0-छत्तरपुर, प्रखण्ड-छत्तरपुर, पलामू। पिन-822113	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
31	II पलामू (12)	कामेश्वर पासवान, पिता-स्व0 राम विलास पासवान, ग्राम-कंचनपुर, पो0-छत्तरपुर, प्रखण्ड-छत्तरपुर, पलामू। पिन-822113	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
32	II पलामू (12)	कामेश्वर बैठा, पिता-मालिक चन्द्र बैठा, ग्राम+पो0-खोढ़ी, प्रखण्ड-छत्तरपुर, पलामू। पिन-822113	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
33	II पलामू (12)	राजकुमार, पिता-कुलदीप राम, ग्राम-कंचनपुर, पो0-छत्तरपुर, प्रखण्ड-छत्तरपुर, पलामू। पिन-822113	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
34	II पलामू (13)	अनुप कुमार गुप्ता, पिता-जगनरायण साह, ग्राम+पो0-कजरूखुर्द, प्रखण्ड-पाण्डू, पलामू। पिन-822132	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
35	II पलामू (13)	नन्द कुमार शर्मा, पिता-रामपरिखा शर्मा, ग्राम-कजरूकला, पो0-कजरूखुर्द, प्रखण्ड-पाण्डू, पलामू। पिन-822132	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

झारखण्ड गजट (असाधारण) गुरुवार, 15 मार्च, 2018

36	II पलामू (14)	अरुण मेहता, पिता-असर्फी महतो, ग्राम-करकट्टा, पो0-जोगा, प्रखण्ड-उंटारी रोड, पलामू। पिन-822116	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
37	II पलामू (14)	दिनेश कुमार मेहता, पिता-राम सुरेश मेहता, ग्राम-लहरबंजारी, पो0-उंटारी रोड, प्रखण्ड-उंटारी रोड, पलामू। पिन-822116	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
38	II पलामू (14)	लालचंद राम, पिता-गनौरी मांझी, ग्राम-मुरमा खुर्द, पो0-मुरमा कला, प्रखण्ड-उंटारी रोड, पलामू। पिन-822132	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
39	II पलामू (15)	रवीन्द्र पासवान, पिता-नन्देव पासवान, ग्राम+पो0-लालगढ़, प्रखण्ड-विश्रामपुर, पलामू। पिन-822124	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
40	II पलामू (16)	जितेन्द्र कुमार पासवान, पिता-नन्दु राम, ग्राम+पो0-कण्डा, प्रखण्ड-नावाबाजार, पलामू। पिन-822124	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
41	II पलामू (16)	लक्ष्मण राम, पिता-स्व0 छटु राम, ग्राम-ईटकी, प्रखण्ड+पो0-नावाबाजार, पलामू। पिन-822113	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
42	II पलामू (18)	उपेन्द्र कुमार, पिता-गोपाल राम, ग्राम-मझिगांवा, पो0-नरसिंहपुर पथरा, प्रखण्ड-चैनपुर, पलामू। पिन-822110	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
43	II पलामू (18)	मो0 नसीम अंसारी, पिता-जितन मियां, ग्राम-लीधकीपूर्व, पो0-कटुवल, प्रखण्ड-चैनपुर, पलामू। पिन-822110	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
44	II पलामू (19)	देवेन्द्र कुमार तिवारी, पिता-श्याम बिहारी तिवारी, ग्राम+पो0-हरिनामाड़, प्रखण्ड-चैनपुर, पलामू। पिन-822110	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
45	II पलामू (19)	अयुब अंसारी, पिता-सर्फुदीन अंसारी, ग्राम-बुढीवीर, पो0-हरिनामाड़, प्रखण्ड-चैनपुर, पलामू। पिन-822110	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

46	II पलामू (20)	अनिता देवी, पति-रामलाल राम, ग्राम+पो0-महुगांवा, प्रखण्ड-चैनपुर, पलामू। पिन-822110	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
47	II पलामू (20)	अनीता देवी, पति-मुनेश्वर भगत, ग्राम-बन्दुआ, पो0-शाहपुर, प्रखण्ड-चैनपुर, पलामू। पिन-822110	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
48	II पलामू (20)	चंचला देवी, पति-उगेन्द्र सिंह, ग्राम-बभण्डीह, पो0-तलया बभण्डीह, प्रखण्ड-चैनपुर, पलामू। पिन-822110	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
49	II पलामू (20)	निर्मला देवी, पति-मनोज कुमार पाण्डेय, ग्राम-कराकाट, पो0-शाहपुर, प्रखण्ड-चैनपुर, पलामू। पिन-822110	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
50	II पलामू (20)	शोभा देवी, पति-संजय कुमार दूबे, ग्राम+पो0-तलया, प्रखण्ड-चैनपुर, पलामू। पिन-822110	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
51	II पलामू (20)	शोभा देवी, पति-अमित कुमार सिंह, ग्राम-लादी, पो0-चैनपुर, प्रखण्ड-चैनपुर, पलामू। पिन-822110	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
52	II पलामू (20)	शबाना तरन्नुम, पति-सलामुदीन खां, ग्राम+पो0-चैनपुर, प्रखण्ड-चैनपुर, पलामू। पिन-822110	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
53	II पलामू (21)	अखिलेश पासवान, पिता-नरेश मांझी, ग्राम+पो0-शाहपुर, प्रखण्ड-चैनपुर, पलामू। पिन-822110	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
54	II पलामू (21)	आलोक रंजन प्रसाद, पिता-कृष्ण प्रसाद, ग्राम-गुरहा, पो0-चैनपुर, प्रखण्ड-चैनपुर, पलामू। पिन-822110	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
55	II पलामू (21)	मनोज महतो, पिता-मुनेश्वर महतो, ग्राम+पो0-चान्दो, प्रखण्ड-चैनपुर, पलामू। पिन-822110	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
56	II पलामू (21)	महेन्द्र सिंह, पिता-मुन्द्रिका सिंह, ग्राम-बसरिया खुर्द, पो0-चान्दो, प्रखण्ड-चैनपुर, पलामू। पिन-822110	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

झारखण्ड गजट (असाधारण) गुरुवार, 15 मार्च, 2018

57	II पलामू (21)	राजू चौधरी, पिता-रामराज चौधरी, ग्राम-अवसाने, पो0-चांदो, प्रखण्ड-चैनपुर, पलामू। पिन-822110	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
58	II पलामू (21)	शिव प्रसाद यादव, पिता-टीवर महतो, ग्राम+पो0-चान्दो, प्रखण्ड-चैनपुर, पलामू। पिन-822110	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
59	II पलामू (21)	शैलेश कुमार, पिता-रामप्रवेश सिंह, ग्राम+पो0-शाहपुर, प्रखण्ड-चैनपुर, पलामू। पिन-822110	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
60	II पलामू (21)	सरफराज आलम, पिता-अब्दुल हई, ग्राम-शाहपुर (नयी मुहल्ला),पो0-शाहपुर, प्रखण्ड-चैनपुर, पलामू। पिन-822110	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
61	II पलामू (21)	अकील खां, पिता-सकील खां, ग्राम-शाहपुर (नयी मुहल्ला),पो0-शाहपुर, प्रखण्ड-चैनपुर, पलामू। पिन-822110	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
62	II पलामू (21)	अखिलेश चौधरी, पिता-त्रिवेणी चौधरी, ग्राम-कंकारी, पो0-चैनपुर, प्रखण्ड-चैनपुर, पलामू। पिन-822110	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
63	II पलामू (21)	राकेश रंजन प्रसाद, पिता-कृष्ण प्रसाद, ग्राम+पो0-चैनपुर, प्रखण्ड-चैनपुर, पलामू। पिन-822110	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
64	II पलामू (22)	अखिलेश सिंह, पिता-भैरोनाथ सिंह, ग्राम-सेरका, पो0-रामगढ़, प्रखण्ड-रामगढ़, पलामू। पिन-822110	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
65	II पलामू (23)	दिव्या कुमारी, पति-प्रेमकमल तिवारी, ग्राम-चट्टी (सिन्दुरिया), पो0-झाबर, प्रखण्ड-मेदिनीनगर,पलामू।पिन-822126	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
66	II पलामू (23)	प्यारे मंसूर अंसारी, पिता-मो0 जमीर अंसारी, ग्राम-सरजा (तरवा टोली), पो0-पोलपोल, प्रखण्ड-मेदिनीनगर,पलामू।पिन-822126	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

67	II पलामू (23)	योगेन्द्र सिंह, पिता-योगेश्वर सिंह, ग्राम-बखारी, पो0-सुवा, प्रखण्ड-मेदिनीनगर, पलामू। पिन-822102	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
68	II पलामू (23)	रंजीत कुमार सोनी, पिता-युगल प्रसाद सोनी, ग्राम-रेड़मा उत्तरी, पो0-चियांकी, प्रखण्ड-मेदिनीनगर, पलामू। पिन-822101	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
69	II पलामू (23)	मो0 शमीम अंसारी, पिता-अब्दुल गफर अंसारी, ग्राम-सरजा (तरवा टोली), पो0-पोलपोल, प्रखण्ड-मेदिनीनगर, पलामू। पिन-822126	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
70	II पलामू (25)	पप्पु सिंह, पिता-सुबा सिंह, ग्राम-सण्डा, पो0-पाल्हे कला, प्रखण्ड-पाटन, पलामू। पिन-822123	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
71	II पलामू (26)	राजीव कु0 पासवान, पिता-भोला पासवान ग्राम-सिक्की खुर्द, पो0-सिक्की कला, प्रखण्ड-पाटन, पलामू। पिन-822123	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
72	II पलामू (26)	कुलदीप राम, पिता-जीतन राम, ग्राम-हिसरा बरवाडीह, पो0-गहर पथरा, प्रखण्ड-पाटन, पलामू। पिन-822123	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
73	II पलामू (27)	शकुंतला देवी, पति-गोवर्धन मांझी, ग्राम-नावाडीह पथलमार, पो0-दीपवा, प्रखण्ड-पाटन, पलामू। पिन-822123	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
74	II पलामू (28)	कमला देवी, पति-बसन्त सिंह, ग्राम-चुनका, पो0-मनातु, प्रखण्ड-मनातु, पलामू। पिन-822123	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
75	II पलामू (28)	सुशिला देवी, पति-सूर्य देव सिंह, ग्राम-गौबही, पो0-सिउदीलिया, प्रखण्ड-मनातु, पलामू। पिन-822123	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
76	II पलामू (28)	मानो देवी, पति-लालदेव सिंह, ग्राम-सेमरी, पो0-पदमा, प्रखण्ड-मनातु, पलामू। पिन-822123	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

77	II पलामू (29)	सन्त कुमार सिंह, पिता-सूवंश सिंह, ग्राम-उदयपुरा, पो0-उदयपुरा 2, प्रखण्ड-तरहसी, पलामू। पिन-822122	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
78	II पलामू (30)	कमला देवी, पति-अर्जन राम, ग्राम-वेदानीकला, पो0-तरहसी, प्रखण्ड-तरहसी, पलामू। पिन-822118	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
79	II पलामू (31)	पुनम देवी, पति-सुधीर कुमार सिंह, ग्राम-झगरपुर, पो0-बसौरा, प्रखण्ड-लेस्लीगंज, पलामू। पिन-822118	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
80	II पलामू (31)	बेबी देवी, पति-मनोज सिंह, ग्राम+पो0-बसौरा, प्रखण्ड-लेस्लीगंज, पलामू। पिन-822118	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
81	II पलामू (31)	संगीता देवी, पति-सुनील सिंह, ग्राम-पुरनाडीह, पो0-लेस्लीगंज, प्रखण्ड-लेस्लीगंज, पलामू। पिन-822188	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
82	II पलामू (33)	मीना देवी, पति-नन्द कुमार सिंह, ग्राम-एकता, पो0-चांपी, प्रखण्ड-सतबरवा, पलामू। पिन-822126	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
83	II पलामू (33)	यशोदा देवी, पति-राजेन्द्र सिंह, ग्राम+पो0-धावाडीह, प्रखण्ड-सतबरवा, पलामू। पिन-822126	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
84	II पलामू (34)	प्रतीमा देवी, पति-राजनाथ सिंह, ग्राम-खाप, पो0-तेतराई, प्रखण्ड-पांकी, पलामू। पिन-822122	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
85	II पलामू (35)	रेशमा बानो, पति-मो0 रजा, ग्राम+पो0-पांकी, प्रखण्ड-पांकी, पलामू। पिन-822122	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
86	II पलामू (35)	स्वेतलाना देवी, पति-सुजीत राम, ग्राम+पो0-पांकी, प्रखण्ड-पांकी, पलामू। पिन-822122	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

87	II पलामू (35)	मंजू आईन्द, पति-आरियन आइन्द, ग्राम-डुलुण्डु, पो0-नामकुम, प्रखण्ड-नामकुम, राँची। पिन-835221	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
88	II पलामू (35)	शीला देवी, पति-शरवन यादव, ग्राम-सालमदिरी, पो0-चाँपी, प्रखण्ड-पांकी, पलामू। पिन-822122	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
89	II पलामू (35)	तरन्नुम खातुन, पति-अब्बस आलम, ग्राम-करार, पो0-पांकी, प्रखण्ड-पांकी, पलामू। पिन-822122	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
90	II पलामू (36)	कासिम मियां, पिता-चुट्टी मियां, ग्राम-हरखुआ, पो0-लोहर्सी, प्रखण्ड-पांकी, पलामू। पिन-822122	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
91	II पलामू (36)	सुजाता देवी, पति-मुकेश सिंह, ग्राम-बड़ौहरी, पो0-द्वारिका, प्रखण्ड-पांकी, पलामू। पिन-822122	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,

ह०/-(अस्पष्ट),

सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग,

झारखण्ड, राँची।
